



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 पौष 1936 (श0)
(सं0 पटना 115) पटना, शुक्रवार, 9 जनवरी 2015

कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना

आदेश

29 दिसम्बर 2014

सं0 07/नि.(विधि-12) विविध-35/2013-7125—न्यायालय बिहार सहकारी अधिकरण, पटना के द्वारा विविध वाद संख्या-02/2013 में पारित आदेश दिनांक 04.06.14 (निर्गत ज्ञापांक 41 दिनांक 25.06.14) द्वारा बिहार स्वावलम्बी सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1996 की धारा-44(3) के प्रावधानानुसार अधोहस्ताक्षरी के पर्यवेक्षण में दी कोशी सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लि., सहरसा को परिसमापित एवं विघटित करने का आदेश देते हुए बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 की धारा-45(क) में विहित प्रावधानानुसार उक्त प्रासंगिक समिति में परिसमापक नियुक्त करने की कार्यवाई करने हेतु निदेशित किया गया है।

तदनुसार मैं, हुकुम सिंह मीना, निबंधक सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 की धारा-45(क) में प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में श्री शशि भूषण कुमार, जिला पदाधिकारी, सहरसा को उक्त समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

परिसमापक बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 की धारा-46, 47 एवं 48 में विहित प्रावधानानुसार उक्त प्रासंगिक समिति के परिसमापन की कार्यवाई सुनिश्चित करेंगे।

आदेश से,
हुकुम सिंह मीना,
निबंधक, सहयोग समितियाँ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 115-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>